

## 7310 - रमज़ान में जनाबत के गुस्ल को फ़ज़्र उदय होने के बाद तक विलंबित करना

---

### प्रश्न

क्या जनाबत (संभोग या वीर्य पात के कारण होने वाली अशुद्धता) के लिए गुस्ल को फ़ज़्र के उदय होने तक विलंबित करना जायज़ है? तथा क्या महिलाओं के लिए मासिक धर्म या प्रसवोत्तर रक्तस्राव के समाप्त होने पर गुस्ल को फ़ज़्र के उदय होने तक विलंबित करना जायज़ है?

### विस्तृत उत्तर

यदि महिला फ़ज़्र से पहले शुद्धता (पाकी) को देखती है, तो उसके लिए रोज़ा रखना अनिवार्य है और उसके लिए फ़ज़्र के उदय होने के बाद तक गुस्ल को विलंबित करने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन उसके लिए उसे सूर्य के उगने तक विलंबित करने की अनुमित नहीं है। इसी तरह जनाबत वाले व्यक्ति के लिए गुस्ल को सूरज के उगने के बाद तक विलंबित करना जायज़ नहीं है। जबकि पुरुषों को चाहिए कि गुस्ल करने में जल्दी करें ताकि वे फ़ज़्र की नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर सकें।